

Part A Introduction			
Program: Degree		Class : B.COM	Year: III
Subject: COMMERCE		Session: 2023-24	
1	Course Code	C3-COMA2D	
2	Course Title	Goods and Service tax and Custom duty	
3	Course Type	Discipline Specific Elective (DSE)	
4	Pre-requisite (if any)	Not required (open for all)	
5	Course Learning outcomes (CLO)	After the successful completion of the course, the students shall be able to - • Connect with the genesis of goods and services tax (GST), decipher the constitutional amendment carried out to install in India and comprehend the composition and working of GST council • Understand the meaning of supply under GST law • Comprehend the utilization of input tax credit • Understand the provisions for registration under GST law • Know the basic concepts of customs Act and to compute the assessable value for charging customs duty.	
6	Credit Value	6	
7	Total Marks	Max. Marks: 30 + 70	Min. Passing Marks: 35
Part B- Content of the Course			
Total No. of Lectures-		90	
Unit	Topics	No. of Lectures	
1	Goods and service tax - Introduction, meaning, features and basic Elements. Important terms and Definition Regarding GST. Background and implementation of GST in India. Structure and Classification of GST.	18	
2	Meaning and scope of Supply, Tax Liability on composite and mixed supply, Levy and Collection of Tax, Registration under GST. List of exempt goods under GST. Time and place of supply of goods and services, Determination of value of Taxable supply. practical problems, Preparation of Tax invoice and rules and proforma.	18	
3	Composition Levy- Person eligible to opt composition, intermation for composition option. Condition and restriction for composition, Rate of tax of the composition levy and the rules regarding Return, Practical, Problems, relating to composition levy.	18	
4	Rules Provisions and procedure for Input tax Credit, Provisions regarding job-work. Classification of taxable goods and Services at the basis of tax rates and Practical Problems.	18	

5	Customs duty : History, Introduction and nature, types of customs duty. Prohibition of Import and Export, Valuation rules, Computation of assessable value and calculation of customs duty.	18
---	--	----

Keywords/Tags: Goods and service tax, Tax Liability, Composition Levy, Input tax Credit, Customs duty

Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

S.n.	Author	Book title	Publisher	City
1	Singhanian V.K	GST & Customs Law	Taxmann Publication.	New Delhi
2	Sisodia Pushpendra	GST Law	Bharat Law House.	New Delhi
3	Bansal K.M.	GST & Customs Law	Taxmann Publication.	New Delhi
4	महरोत्रा एवं गोयल	वस्तु एवं सेवाकर	साहित्य भवन पब्लिकेन	आगरा
5	श्रीपाल सकलेचा	वस्तु एवं सेवाकर	सतीश प्रिन्टर्स	इन्दौर
6	सीए अनूप मोदी, सीए महेश गुप्ता	वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क	एस. बी. पी. डी.	आगरा

Suggestive digital platforms/ web links

1. <https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-Concept%20and%20Status01072019n.pdf>
2. <https://www.bankbazaar.com/tax/custom-duty.html>
3. <https://cbic-gst.gov.in/pdf/ovw-short.pdf>
4. <https://www.rccmindore.com/wp-content/uploads/2020/12/Goods-Seervice-Tax-Costom-duty-1.pdf>
5. <https://www.eshiksha.mp.gov.in>

Suggested equivalent online courses:

Part D-Assessment and Evaluation


Suggested Continuous Evaluation Methods:

Maximum Marks : 100

Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) : 30 Marks University Exam (UE): 70 Marks

Internal Assessment : Continuous Comprehensive Evaluation (CCE)	Class Test Assignment/Presentation	30
External Assessment : University Exam Section Time : 03.00 Hours	Section(A) : Very Short Questions Section (B) : Short Questions Section (C) : Long Questions	70

Any remarks/ suggestions:


(DR. PAVAN MISHRA)

(PROF.PAVAN MISHRA)

Chairman

Central Board of Studies (Commerce)

Department of Higher Education Govt. of M.P.

भाग अ - परिचय			
कार्यक्रम: उपाधि		कक्षा :बी.कॉम.	वर्ष: तृतीय
		सत्र: 2023-24	
विषय: वाणिज्य			
1	पाठ्यक्रम का कोड	C3-COMA2D	
2	पाठ्यक्रम का शीर्षक	वस्तु और सेवाकर एवं सीमा शुल्क	
3	पाठ्यक्रम का प्रकार :	डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव(डी.एस.ई.)	
4	पूर्वपेक्षा (Prerequisite)	सभी के लिए उपलब्ध (Open For all)	
5	पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद, छात्र सक्षम होंगे – 1. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की उत्पत्ति से जुड़ेंगे, भारत में किए गए संवैधानिक संशोधन को समझना और जीएसटी परिषद की संरचना और कामकाज को समझना। 2. जीएसटी कानून के तहत आपूर्ति का अर्थ समझना। 3. इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग को समझना। 4. जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण के प्रावधानों को समझना। 5. सीमा शुल्क अधिनियम की मूल अवधारणाओं को जानना और सीमा शुल्क वसूलने के लिए निर्धारणीय मूल्य की गणना करना।	
6	क्रेडिट मान		
7	कुल अंक	अधिकतम अंक: 30+70	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक: 35
भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु			
व्याख्यान की कुल संख्या-		90	
इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या	
1	वस्तु एवं सेवा कर - परिचय, अर्थ, विशेषताएं, एवं आधारभूत तत्व। जीएसटी संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं शब्दावली। भारत में जीएसटी की पृष्ठभूमि एवं क्रियान्वयन। माल एवं सेवा कर की संरचना एवं वर्गीकरण।	18	
2	वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रदाय का अर्थ एवं क्षेत्र, संयुक्त एवं मिश्रित प्रदायों पर कर दायित्व। कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण। माल एवं सेवाकर ; जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन। माल एवं सेवाकर के अन्तर्गत करमुक्त माल की सूची। माल एवं सेवाओं के प्रदाय का समय एवं स्थान, करयोग्य प्रदाय का मूल्य निर्धारण, व्यावहारिक समस्याएँ, कर बीजक तैयार करना – नियम एवं प्रारूप।	18	
इकाई – III	कम्पोजिशन लेवी – कम्पोजिशन के पात्र व्यक्ति, कम्पोजिशन के विकल्प की सूचना, कम्पोजिशन की शर्तें एवं प्रतिबन्ध। कम्पोजिशन की दशा में कर की दरें एवं विवरणी सम्बन्धी नियम। कम्पोजिशन सम्बन्धी व्यावहारिक समस्याएँ।	18	
इकाई – IV	इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धी प्रावधान, नियम एवं प्रक्रिया। जॉब वर्क सम्बन्धी प्रावधान। करयोग्य माल एवं सेवाओं पर कर की दरों का वर्गीकरण एवं व्यावहारिक समस्याएँ।	18	
इकाई – V	सीमा शुल्क - इतिहास, परिचय एवं प्रकृति, सीमा शुल्क के प्रकार। आयात एवं निर्यात पर निषेध। मूल्यांकन नियम, कर योग्य मूल्य एवं सीमा शुल्क की गणना।	18	
सार बिंदु (की वर्ड)/टैग: वस्तु एवं सेवा कर, उद्ग्रहण एवं संग्रहण, कर बीजक, कम्पोजिशन लेवी, इनपुट टैक्स			

क्रेडिट,

सीमा शुल्क,

भाग स- अनुशंसित अध्ययन संसाधन

पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

S.n.	Author	Book title	Publisher	City
1	Singhanian V.K	GST & Customs Law	Taxmann Publication.	New Delhi
2	Sisodia Pushpendra	GST Law	Bharat Law House.	New Delhi
3	Bansal K.M.	GST & Customs Law	Taxmann Publication.	New Delhi
4	महरोत्रा एवं गोयल	वस्तु एवं सेवाकर	साहित्य भवन पब्लिकेन	आगरा
5	श्रीपाल सकलेचा	वस्तु एवं सेवाकर	सतीश प्रिन्टर्स	इन्दौर
6	सीए अनूप मोदी, सीए महेश गुप्ता	वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क	एस. बी. पी. डी.	आगरा

2. अनुशंसित डिजिटल प्लेटफॉर्म /वेब लिंक

1. https://dor.gov.in/sites/default/files/GST_Hindi.pdf
2. https://pwd.uk.gov.in/files/PWD/GST_General_Information.pdf
3. <https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/gst/lexicon-all-pages.pdf>
4. <https://www.eshiksha.mp.gov.in>

अनुशंसित समकक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम:


भाग द - अनुशंसित मूल्यांकन विधियां:

अनुशंसित सतत मूल्यांकन विधियां:

अधिकतम अंक: 100

सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) अंक : 30 विश्वविद्यालयीन परीक्षा (UE) अंक: 70

आंतरिक मूल्यांकन:	क्लास टेस्ट	30
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE):	असाइनमेंट/ प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन)	
आकलन :	अनुभाग (अ): अति लघु प्रश्न	
विश्वविद्यालयीन परीक्षा:	अनुभाग (ब): लघु प्रश्न	70
समय- 03.00 घंटे	अनुभाग (स): दीर्घ उत्तरीय प्रश्न	



(PROF. PAVAN MISHRA)

Chairman

Central Board of Studies (Commerce)

Department of Higher Education Govt. of M.P.